



पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
 रजि. कार्यालय: ऊर्जाविधि बाराखम्बा लेन कर्नाट प्लेस ई दिल्ली वेबसाइट: <https://www.pfcindia.com>
 सीआईएन: L65910DL1986G0024862

दिनांक : 31.12.2025 को समाप्त तिमाही एवं समाप्त नौ माह के लिए अंकित एकल वित्तीय परिणाम का विवरण

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त नौ माह		समाप्त वर्ष
		31.12.2025 (अंकित)	30.09.2025 (अंकित)	31.12.2024 (अंकित)	31.12.2025 (अंकित)	31.12.2024 (अंकित)	31.03.2025 (अंकित)
	परिचालनों से राजस्व						
(i)	ब्याज आय	13,935.87	13,472.78	12,417.22	41,147.54	36,153.23	49,874.70
(ii)	लाभों का आय	667.26	1,102.44	592.33	1,775.70	1,840.43	2,992.30
(iii)	शुल्क एवं कमीशन आय	52.71	180.28	34.14	261.52	166.70	232.22
I	कुल परिचालनों से राजस्व	14,655.84	14,755.50	13,043.69	43,184.76	38,160.36	53,099.22
II	अन्य आय	4.86	0.76	8.84	8.98	23.72	28.54
III	कुल आय (I+II)	14,660.70	14,756.26	13,052.53	43,193.74	38,184.08	53,127.76
	व्यय						
(i)	वित्तीय लागतें	8,329.40	8,182.94	7,722.40	24,774.17	22,717.73	30,511.94
(ii)	निवल अंतरण/दृष्टिकोण विनिमय हानि/(लाभ)	127.60	497.18	(45.71)	1,279.42	205.38	466.76
(iii)	शुल्क एवं कमीशन व्यय	(4.65)	9.02	10.04	13.81	20.42	28.66
(iv)	उचित मूल्य परिवर्तन पर निवल हानि/(लाभ)	42.15	101.11	40.29	(12.59)	(338.43)	(230.45)
(v)	वित्तीय लिखत पर क्षतिग्रस्तता	5.15	241.99	74.48	(434.68)	12.40	457.11
(vi)	कार्मिक हितलाभ व्यय	76.70	67.02	62.25	214.35	179.40	266.18
(vii)	मूल्यांकन, परिशोधन एवं क्षतिग्रस्तता	8.02	5.81	5.41	18.65	13.38	19.83
(viii)	निगमित सामाजिक दायित्व व्यय	78.10	76.36	64.84	230.26	193.74	270.28
(ix)	अन्य व्यय	40.89	34.94	39.23	99.96	109.00	165.08
IV	कुल व्यय	8,703.36	9,216.37	7,973.23	26,183.35	23,113.02	31,955.39
V	असाधारण मदों एवं कर पूर्व लाभ/(हानि) (III-IV)	5,957.34	5,539.89	5,079.30	17,010.39	15,071.06	21,172.37
VI	असाधारण मदें	-	-	-	-	-	-
VII	कर पूर्व लाभ/(हानि) (V-VI)	5,957.34	5,539.89	5,079.30	17,010.39	15,071.06	21,172.37
	कर व्यय:						
	वर्तमान कर:						
	वर्तमान वर्ष	1,091.51	1,106.35	928.18	3,243.43	2,602.33	3,585.36
	पूर्ववर्ती वर्ष	-	-	-	-	-	(15.31)
	(i) आस्थगित कर व्यय / (आय)	-	-	-	-	-	-
	(ii) मंदा से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	102.50	(28.40)	(3.80)	40.19	225.49	250.13
VIII	कुल कर व्यय	1,194.01	1,077.95	924.38	3,283.62	2,827.82	3,820.18
IX	जारी परिचालनों से अवधि के लिए लाभ/(हानि) (VII-VIII)	4,763.33	4,461.94	4,154.92	13,726.77	12,243.24	17,352.19
X	बंद परिचालनों से लाभ/(हानि) (कर पश्चात)	-	-	-	-	-	-
XI	अवधि के लिए लाभ/(हानि) (जारी एवं बंद परिचालनों से) (IX+X)	4,763.33	4,461.94	4,154.92	13,726.77	12,243.24	17,352.19
	अन्य व्यापक आय						
(A)	(i) मंदा जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा						
	- परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनःमापन	(1.54)	(1.55)	(1.44)	(4.63)	(4.30)	(6.17)
	- इकिटी लिखत के उचित मूल्य पर निवल लाभ/(हानि)	(105.77)	(196.22)	(645.20)	(119.55)	33.04	(2.90)
(ii) मंदा से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा							
	- परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनःमापन	0.37	0.37	0.36	1.11	1.09	1.45
	- इकिटी लिखत के उचित मूल्य पर निवल लाभ/(हानि)	15.67	44.67	109.72	18.43	(52.14)	(52.23)
	उप कुल (क)	(91.27)	(152.73)	(536.56)	(104.64)	(22.31)	(59.85)
(B)	(i) मंदा जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा						
	- नकदी प्रवाह हेतु में हेजिंग लिखतों पर लाभ और (हानि) का लागू भाग	253.20	379.57	257.79	449.00	(8.83)	(197.26)
	- हेजिंग लागत आरक्षित	(612.30)	(211.75)	(252.36)	(1,373.13)	(17.78)	(124.79)
(ii) मंदा से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा							
	- केच फ्लो हेज में लाभ का प्रभावी हिस्सा (हानि) /	(63.72)	(95.53)	(64.88)	(113.00)	2.22	49.65
	- हेजिंग लागत आरक्षित	154.10	53.30	63.52	345.59	4.48	31.41
	उप कुल (ख)	(268.72)	125.59	4.07	(691.54)	(19.91)	(240.99)
XII	अन्य व्यापक आय (क+ख)	(359.99)	(27.14)	(532.49)	(796.18)	(42.22)	(300.84)
XIII	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (XI+XII)	4,403.34	4,434.80	3,622.43	12,930.59	12,201.02	17,051.35
XIV	प्रदत्त इकिटी शेयर पूंजी (प्रत्येक अंकित मूल्य 10/- रुपए)	3,300.10	3,300.10	3,300.10	3,300.10	3,300.10	3,300.10
XV	अन्य इकिटी (31 मार्च के अंकित तुलन-पत्र के अनुसार)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	87,636.77
XVI	मूल एवं तनुकृत प्रति इकिटी शेयर अर्जन (प्रत्येक अंकित मूल्य रुपए) :-						
	(1) जारी परिचालनों के लिए (रु में)	14.43	13.52	12.59	41.59	37.10	52.58
	(2) बंद परिचालनों के लिए (रु में)	- 14.43	- 13.52	- 12.59	- 41.59	- 37.10	- 52.58
	(3) जारी एवं बंद परिचालनों के लिए (रु में)						

* तिमाही और वार्षिक के लिए इंपीएस वर्गीकृत नहीं है।
 अलेखापरीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों से संबंधित नोट्स देखें।



पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
 रवि, कार्यालय: ऊज्ज्विनिधि बाराखंभा रोड कनेक्ट प्लेस नई दिल्ली वेबसाइट: <https://www.pfcindia.com>
 सीआईएन U65910DL1986G01024862

दिनांक : 31.12.2025 को समाप्त तिमाही एवं समाप्त नौ माह के लिए अनेकक्षित एकल वित्तीय परिणाम का विवरण

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त नौ माह		समाप्त वर्ष
		31.12.2025	30.09.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024	31.03.2025
		(अनेकक्षित)	(अनेकक्षित)	(अनेकक्षित)	(अनेकक्षित)	(अनेकक्षित)	(अनेकक्षित)
	परिचालनों से राजस्व						
(i)	ब्याज आय	28,468.10	28,069.47	26,400.27	84,795.10	76,324.86	105,001.01
(ii)	लाभों का आय	29.71	28.68	44.37	64.39	66.86	90.51
(iii)	शुल्क एवं कमीशन आय	445.19	654.03	109.87	1,271.94	337.60	625.96
(iv)	अन्य परिचालन आय	151.81	138.06	243.53	392.66	507.27	784.14
I	कुल परिचालनों से राजस्व	29,094.81	28,890.24	26,798.04	86,524.09	77,236.59	106,501.62
II	अन्य आय	45.76	10.98	23.80	146.62	76.66	97.08
III	कुल आय (I+II)	29,140.57	28,901.22	26,821.84	86,670.71	77,313.25	106,598.70
	व्यय						
(i)	वित्तीय लागतें	17,572.10	17,313.68	16,559.52	52,081.86	48,080.97	64,643.88
(ii)	निवल अंतरण/ट्रांजेक्शन विनियम हानि/(लाभ)						
(iii)	शुल्क एवं कमीशन व्यय	175.15	576.72	13.41	1,458.02	366.21	674.83
(iv)	उचित मूल्य परिवर्तन पर निवल हानि/(लाभ)	(2.19)	9.54	11.65	25.54	28.99	34.33
(v)	वित्तीय लिखत पर क्षतिग्रस्ता प्रदत्त सेवाओं की लागत	306.06	159.76	(43.14)	886.47	(704.99)	(578.68)
(vi)	कार्मिक हितलाभ व्यय	118.80	381.69	(8.92)	(791.12)	257.52	1,478.70
(vii)	मूल्यहास, परीक्षण एवं क्षतिग्रस्ता	58.29	61.36	33.08	174.65	107.55	170.84
(viii)	निर्गमित सामाजिक दायित्व व्यय	152.33	138.19	121.31	429.43	374.38	550.77
(ix)	अन्य व्यय	17.85	15.32	14.57	47.42	39.92	55.68
(x)		134.88	95.32	185.22	339.78	398.01	564.18
(xi)		87.47	92.28	118.84	242.48	286.86	371.76
IV	कुल व्यय	18,620.74	18,843.86	17,005.55	54,894.53	49,235.43	67,966.29
V	संयुक्त उद्यम एवं एसोसिएट्स में लाभ/(हानि) का हिस्सा	-	-	0.01	-	0.01	(0.25)
VI	असाधारण मदों और करपूर्व लाभ/(हानि) (III-IV+V)	10,519.83	10,057.36	9,816.30	31,776.18	28,077.83	38,632.16
VII	असाधारण मदें	18.28	-	-	18.28	-	-
VIII	कर पूर्व लाभ/(हानि) (V-VI)	10,501.55	10,057.36	9,816.30	31,757.90	28,077.83	38,632.16
	कर व्यय:						
(i)	वर्तमान कर:						
	-वर्तमान वर्ष	2,125.30	2,281.62	2,000.98	6,499.15	5,701.97	7,748.48
	-पूर्ववर्ती वर्ष	0.18	-	(0.35)	0.18	(0.35)	(15.56)
(ii)	आस्थगित कर व्यय / (आय)	164.17	(58.65)	56.11	230.83	219.69	384.84
IX	कुल कर व्यय	2,289.65	2,222.97	2,056.74	6,730.16	5,921.31	8,117.76
X	जारी परिचालनों से अवधि के लिए लाभ/(हानि) (VI-IX)	8,211.90	7,834.39	7,759.56	25,027.74	22,156.52	30,514.40
XI	बंद परिचालनों से लाभ/(हानि) (कर पश्चात)	-	-	-	-	-	-
XII	अवधि के लिए लाभ/(हानि) (जारी एवं बंद परिचालनों से) (IX+X)	8,211.90	7,834.39	7,759.56	25,027.74	22,156.52	30,514.40
(A)	अन्य व्यापक आय						
(i)	मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा						
	-परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनःमापन	(10.55)	5.19	(2.00)	(4.68)	(3.03)	(5.41)
	-इकिटी लिखत के उचित मूल्य पर निवल लाभ/(हानि)	(199.84)	(132.21)	(694.18)	(145.11)	8.79	(26.76)
(ii)	मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा						
	-परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनःमापन	2.64	(1.33)	0.50	1.12	0.77	1.26
	-इकिटी लिखत के उचित मूल्य पर निवल लाभ/(हानि)	19.10	41.24	110.30	18.43	(52.14)	(52.23)
	उप कुल (क)	(188.65)	(87.11)	(585.38)	(130.24)	(45.61)	(83.14)
(B)	वे मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा						
	-केश फ्लो हेज में लाभ / (हानि) का प्रभावी हिस्सा	(593.94)	133.43	797.92	(4,294.39)	1,809.63	1,026.25
	-हेजिंग लागत आरक्षित	1,268.50	840.04	211.75	1,908.42	(2,428.71)	(3,344.14)
	-विदेशी परिचालन के वित्तीय विवरणों के अनुवाद में विनियम अंतर						
(i)	उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा	1.38	4.06	2.25	5.39	2.84	2.77
	- नकदी प्रवाह हेज में लाभ और का प्रभावी हिस्सा (हानि)						
	-हेजिंग लागत आरक्षित						
	- विदेशी परिचालनों के वित्तीय विवरण के अंतरण में विनियम अंतर	149.49	(33.58)	(200.82)	1,080.82	(455.45)	(258.28)
		(319.26)	(211.41)	(53.29)	(480.31)	611.26	841.66
		(0.35)	(1.02)	(0.56)	(1.36)	(0.71)	(0.70)
	उप कुल (ख)	505.82	731.52	757.25	(1,781.43)	(461.14)	(1,732.44)

XIII.	अन्य व्यापक आय (क+ख)	317.17	644.41	171.87	(1,911.67)	(506.75)	(1,815.58)
XIV.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (XI+XII)	8,529.07	8,478.80	7,931.43	23,116.07	21,649.77	28,698.82

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त नौ माह		समाप्त वर्ष
		31.12.2025	30.09.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024	31.03.2025
		(Un-Audited)	(Un-Audited)	(Un-Audited)	(Un-Audited)	(Un-Audited)	(Audited)
	लाभ का कारण: -कंपनी के मालिक -गैर-निबंधन हित	6,292.46 1,919.44	5,743.25 2,091.14	5,828.79 1,930.77	18,901.97 6,125.77	16,674.36 5,482.16	22,990.81 7,523.59
		8,211.90	7,834.39	7,759.56	25,027.74	22,156.52	30,514.40
	अन्य व्यापक आय के कारण: -कंपनी के मालिक -गैर-निबंधन हित	(3.08) 320.25	327.77 316.64	(160.95) 332.82	(1,381.41) (530.26)	(285.72) (221.03)	(1,097.15) (718.43)
		317.17	644.41	171.87	(1,911.67)	(506.75)	(1,815.58)
	कुल समग्र आय के कारण: -कंपनी के मालिक -गैर-निबंधन हित	6,289.38 2,239.69	6,071.02 2,407.78	5,667.84 2,263.59	17,520.56 5,595.51	16,388.64 5,261.13	21,893.66 6,805.16
		8,529.07	8,478.80	7,931.43	23,116.07	21,649.77	28,698.82
XV.	प्रदत्त इकिटी शेर पर पूंजी (प्रत्येक अंकित मूल्य 10/- रुपए)	3,300.10	3,300.10	3,300.10	3,300.10	3,300.10	3,300.10
XVI.	अन्य इकिटी (31 मार्च के अकेधित तुलन-पत्र के अनुसार)	सागू नहीं	सागू नहीं	सागू नहीं	सागू नहीं	सागू नहीं	114,438.25
XVII.	मूल एवं वनकृत प्रति इकिटी शेर अर्जन (प्रत्येक अंकित मूल्य रुपए)*:						
	(1) जारी परिचालनों के लिए (₹ में)	19.07	17.40	17.66	57.28	50.53	69.67
	(2) बंद परिचालनों के लिए (₹ में)	- 19.07	- 17.40	- 17.66	- 57.28	- 50.53	- 69.67
	(3) जारी एवं बंद परिचालनों के लिए (₹ में)						

* तिमाही और छमाही के लिए ईपीएस वार्षिकीकृत नहीं है।
असेखापरीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों से संबंधित नोट्स देखें।

30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए संशोधित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियमन 52(7) और 52(7ए) के अनुपालन में प्रकटीकरण।

क. निर्गम आय के उपयोग का विवरण:

जारीकर्ता का नाम	आईएसआईएन	धन जुटाने का तरीका (पब्लिक इश्यू/निजी प्लेसमेंट)	उपकरण का प्रकार*	धन जुटाने की तिथि	जुटाया गई राशि (₹ करोड़ में अंकित) (मूल्य)	उपयोग की गई धनराशि (₹ करोड़ रूपये में) (अंकित मूल्य)	कोई विचलन (हाँ/नहीं)	यदि हाँ है, तो निर्दिष्ट करें के उद्देश्य जिसमें धनराशि का उपयोग किया गया	टिप्पणी, यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	INE134E08NU7 (पुनर्निर्गम)	निजी प्लेसमेंट	एनसीडी	03-नवंबर-2025	2,500.00	2,500.00	नहीं	लागू नहीं	-
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	INE134E08NX1	निजी प्लेसमेंट	एनसीडी	03-नवंबर-2025	2,486.00	2,486.00	नहीं	लागू नहीं	-
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	INE134E08NY9	निजी प्लेसमेंट	एनसीडी	27-नवंबर-2025	3,000.00	3,000.00	नहीं	लागू नहीं	-
				कुल	7,986.00	7,986.00			

* एनसीडी - गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर

ख. निर्गम आय के उपयोग में विचलन/भिन्नता का विवरण:

विवरण	टिप्पणी
सूचीबद्ध इकाई का नाम	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
धन जुटाने का तरीका	प्राइवेट प्लेसमेंट
उपकरण का प्रकार	गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियाँ
धन जुटाने की तिथि	03-नवंबर-25 (मौजूदा आईएसआईएन का एक पुनर्निर्गम और एक प्लेन बैनिला विकल्प), 27-नवंबर-25 (एकल प्लेन बैनिला विकल्प)
जुटाई गई राशि	₹ 7,986 करोड़
समाप्त तिमाही के लिए दाखिल रिपोर्ट	31-दिसंबर-2025
क्या जुटाई गई धनराशि के उपयोग में कोई विचलन/भिन्नता है?	नहीं
क्या प्रॉस्पेक्टस/प्रस्ताव दस्तावेज में उल्लिखित निर्गम के उद्देश्यों में परिवर्तन करने के लिए किसी अनुमोदन की आवश्यकता है?	
यदि हाँ, तो आवश्यक अनुमोदन का ब्यौरा क्या है?	
अनुमोदन का दिनांक	

विचलन/भिन्नता के लिए स्पष्टीकरण		लागू नहीं				
समीक्षा के बाद लेखा परीक्षा समिति की टिप्पणियाँ						
लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ, यदि कोई हों						
जिन उद्देश्यों के लिए धनराशि जुटाई गई है और जहाँ विचलन/भिन्नता हुई है, निम्न तालिका:						
मूल वस्तु	संशोधित वस्तु, यदि कोई हो	मूल आवंटन	संशोधित आवंटन, यदि कोई हो	उपयोग की गई धनराशि	लागू वस्तु के अनुसार तिमाही के लिए विचलन/भिन्नता की राशि (करोड़ रुपये में और % में)	यदि कोई टिप्पणी हो
लागू नहीं						
विचलन का अर्थ हो सकता है:						
क. जिन उद्देश्यों या प्रयोजनों के लिए धनराशि जुटाई गई है, उनमें विचलन।						
ख. मूल रूप से प्रकट की गई राशि की तुलना में वास्तव में उपयोग की गई राशि में विचलन।						

31.12.2025 को समाप्त तिमाही और नौ माह की अवधि के लिए गैर-लेखापरीक्षित स्वतंत्र वित्तीय परिणामों पर टिप्पणी: -

1	31.12.2025 को समाप्त तिमाही और नौ महीने की अवधि के लिए कंपनी के इन गैर-लेखापरीक्षित स्वतंत्र वित्तीय परिणामों की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई और सिफारिश की गई, जिसे कंपनी के निदेशक मंडल (बोर्ड) ने 05.02.2026 को आयोजित अपनी-अपनी बैठकों में अनुमोदित कर रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी के संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों, ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और मेहरा गोयल एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने सेबी (लिस्टिंग ऑब्जिगेशन्स एंड डिस्क्लोजर रिकायरमेंट्स) रेगुलेशन, 2015, संशोधित के विनियम 33 और 52 के अनुसार इन वित्तीय परिणामों की सीमित समीक्षा की है।																																						
2	ये अनऑडिटेड स्टैंडअलोन वित्तीय परिणाम, समयसमय पर यथा संशोधित-, कंपनी नियमावली (भारतीय लेखा मानक), 2015 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानक - 34 'अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग' में निर्धारित मान्यता और मापन सिद्धांतों और भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए हैं।																																						
3	05.02.2026 को आयोजित अपनी बैठक में निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए चुकता इक्विटी शेयर पूंजी पर 40% की दर से तीसरे अंतरिम लाभांश यानी 10/- रुपये के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 4.00/- रुपये घोषित किए हैं। कंपनी ने इससे पहले वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अंतरिम लाभांश के रूप में 7.35/- रुपये का भुगतान किया था।																																						
4	<p>कंपनी इंड एस 109 'वित्तीय लिखत' के अनुसार ईसीएल के मूल्यांकन के लिए कंपनी द्वारा नियुक्त एक स्वतंत्र एजेंसी से प्राप्त रिपोर्ट और बोर्ड द्वारा अनुमोदित 'एक्स्पेक्टेड क्रेडिट लॉस' नीति के अनुसार ऋण संपत्तियों पर हानि भत्ते को मान्यता देती है। इस संबंध में विवरण नीचे दिए गए हैं:</p> <p style="text-align: center;">(करोड़ ₹ में)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">क्र.सं.</th> <th rowspan="2">विवरण</th> <th colspan="3">31.12.2025 तक</th> <th colspan="3">31.03.2025 तक</th> </tr> <tr> <th>चरण 1 एवं 2</th> <th>चरण 3</th> <th>कुल</th> <th>चरण 1 एवं 2</th> <th>चरण 3</th> <th>कुल</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>क)</td> <td>बकाया ऋण (बकाया मूलधन)</td> <td>5,60,278.63</td> <td>9,348.31</td> <td>5,69,626.94</td> <td>5,32,603.56</td> <td>10,516.85</td> <td>5,43,120.41</td> </tr> <tr> <td>ख)</td> <td>क्षति हानि भत्ता *</td> <td>5,799.36</td> <td>7,873.78</td> <td>13,673.14</td> <td>5,992.51</td> <td>8,424.25</td> <td>14,416.76</td> </tr> <tr> <td>ग)</td> <td>क्षति हानि भत्ता कवरेज (%) (बी/ए)</td> <td>1.04%</td> <td>84.23%</td> <td>2.40%</td> <td>1.13%</td> <td>80.10%</td> <td>2.65%</td> </tr> </tbody> </table> <p>* कम्पर्ट लेटर और अंडरटेकिंग लेटर पर ₹ 22.29 करोड़ की इम्पेयरमेंट लॉस अलाउंस (हानि प्रावधान) सहित। (31.03.2025 को यह ₹ 50.71 करोड़ था।)</p>	क्र.सं.	विवरण	31.12.2025 तक			31.03.2025 तक			चरण 1 एवं 2	चरण 3	कुल	चरण 1 एवं 2	चरण 3	कुल	क)	बकाया ऋण (बकाया मूलधन)	5,60,278.63	9,348.31	5,69,626.94	5,32,603.56	10,516.85	5,43,120.41	ख)	क्षति हानि भत्ता *	5,799.36	7,873.78	13,673.14	5,992.51	8,424.25	14,416.76	ग)	क्षति हानि भत्ता कवरेज (%) (बी/ए)	1.04%	84.23%	2.40%	1.13%	80.10%	2.65%
क्र.सं.	विवरण			31.12.2025 तक			31.03.2025 तक																																
		चरण 1 एवं 2	चरण 3	कुल	चरण 1 एवं 2	चरण 3	कुल																																
क)	बकाया ऋण (बकाया मूलधन)	5,60,278.63	9,348.31	5,69,626.94	5,32,603.56	10,516.85	5,43,120.41																																
ख)	क्षति हानि भत्ता *	5,799.36	7,873.78	13,673.14	5,992.51	8,424.25	14,416.76																																
ग)	क्षति हानि भत्ता कवरेज (%) (बी/ए)	1.04%	84.23%	2.40%	1.13%	80.10%	2.65%																																

5	विवेकशीलता (पूर्वेंस) के आधार पर, क्रेडिट हानि ग्रस्त ऋणों पर आय की पहचान तब की जाती है जब वह प्राप्त होती है, या प्रोद्घवन के आधार पर तब की जाती है जब अपेक्षित वसूली बकाया ऋण राशि से अधिक हो।
6	सेबी विनियम (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ), 2015, जैसा कि संशोधित है, के विनियम 52 (4) के अनुसार प्रकटीकरण अनुलग्नक ए के रूप में संलग्न है।
7	कंपनी बैंकोपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों-सरकारी एजेंसियों से सावधि ऋण और विभिन्न अवधियों की गैर/वित्तीय संस्थानों/ के मिश्रण के माध्यम से विभिन्न मुद्राओं में धन जुटाती है। 31.12.2025 को समाप्त नौ महीनों के दौरान, कंपनी ने अपने ऋणों के भुगतान में कोई चूक नहीं की है।
8	31.12.2025 को समाप्त तिमाही के दौरान, गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों को जारी करके कंपनी द्वारा जुटाई गई राशियों का पूरी तरह से उपयोग किया गया है और प्रस्ताव दस्तावेज/सूचना ज्ञापन में बताए गए उद्देश्यों से कोई महत्वपूर्ण विचलन नहीं है। सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015, जैसा कि संशोधित है, के विनियम 52 (7) और 52 (7A) के अनुसार प्रकटीकरण अनुलग्नक बी के रूप में संलग्न है।
9	सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015, जैसा कि संशोधित है, के विनियमन 54 के अनुपालन में, कंपनी की सभी सुरक्षित सूचीबद्ध गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियां निर्दिष्ट अचल संपत्तियों के बंधक और/या कंपनी की प्राप्तियों पर प्रभार के माध्यम से पूरी तरह से सुरक्षित हैं। कंपनी ने प्रस्ताव दस्तावेज / सूचना ज्ञापन की शर्तों के अनुसार 1.03 गुना का सुरक्षा कवर बनाए रखा है, जो जारी की गई सुरक्षित सूचीबद्ध गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों के मूलधन और उस पर ब्याज का हर समय भुगतान करने के लिए पर्याप्त है। निर्धारित प्रारूप में सुरक्षा कवर का प्रकटीकरण अनुलग्नक सी के रूप में संलग्न है। इसके अतिरिक्त, कंपनी द्वारा सभी सुरक्षित गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों के लिए बनाए रखा गया सुरक्षा कवर 1.02 गुना है।
10	नए श्रम कानूनों, 2025 के लागू होने से वर्तमान अवधि में कंपनी के वित्तीय परिणामों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव (भौतिक) नहीं पड़ा है। इसके अतिरिक्त, कंपनी श्रम कानूनों के अन्य पहलुओं पर केंद्र राज्य के नियमों को अंतिम/रूप दिए जाने और सरकार से प्राप्त होने वाले स्पष्टीकरणों की निगरानी करना जारी रखेगी और आवश्यकता पड़ने पर, ऐसे घटनाक्रमों के आधार पर उचित लेखांकन प्रभाव प्रदान करेगी।
11	कंपनी के परिचालन में केवल एक ही व्यवसाय खंड शामिल है - बिजली, लॉजिस्टिक्स और बुनियादी ढांचा क्षेत्र को ऋण देना। इसलिए, भारतीय लेखा मानक 108 "ऑपरेटिंग सेगमेंट" के अनुसार कोई अन्य रिपोर्ट योग्य व्यवसाय / भौगोलिक खंड नहीं है।
12	वर्तमान अवधि के साथ तुलना योग्य बनाने के लिए, जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, पिछली अवधियों के आँकड़ों को पुनर्गठित/ पुनर्कीर्णित किया गया है।

31.12.2025 को समाप्त तिमाही और नौ महीनों के लिए सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 52 (4) के अनुसार एकल आधार पर प्रकटीकरण:

क्र. सं.	विवरण	दिनांक 31.12.2025 को समाप्त तिमाही तक/के लिए	दिनांक 31.12.2025 को समाप्त नौ महीनों तक/के लिए
(i)	ऋण से इक्विटी अनुपात (गुना)		4.74
(ii)	बकाया प्रतिदेय वरीयता शेयर		-
(iii)	पूँजी शोधन आरक्षित / ऋणपत्र शोधन आरक्षित		-
(iv)	नेट वर्थ (₹ करोड़ में)		1,00,736.88
(v)	कर के बाद शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	4,763.33	13,726.77
(vi)	प्रति शेयर आय (वार्षिकीकृत नहीं) (₹ में)		
	बेसिक	14.43	41.59
	डाइल्यूटेड	14.43	41.59
(vii)	कुल ऋण से कुल संपत्ति (गुना)		0.79
(viii)	परिचालन मार्जिन (%)	40.62%	39.37%
(ix)	शुद्ध लाभ मार्जिन (%)	32.49%	31.78%
(x)	अन्य क्षेत्र-विशिष्ट अनुपात (%)		
	(क) सकल क्रेडिट हानि ग्रस्त परिसंपत्ति अनुपात		1.64
	(ख) शुद्ध क्रेडिट हानि ग्रस्त परिसंपत्ति अनुपात		0.26
	(ग) सीआरएआर		22.39

नोट:

- 1) ऋण से इक्विटी अनुपात = शुद्ध ऋण / (इक्विटी शेयर पूँजी + अन्य इक्विटी)। निवल ऋण = (ऋण प्रतिभूतियों + उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा) + अधीनस्थ देयताएँ) का मूल बकाया नकद और नकद समकक्ष घटाएँ।
- 2) निवल मूल्य = इक्विटी शेयर पूँजी + अन्य इक्विटी।
- 3) कुल ऋण से कुल संपत्ति = (ऋण प्रतिभूतियों + उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा) + अधीनस्थ देयताएँ) का मूल बकाया / कुल संपत्ति।
- 4) परिचालन मार्जिन = (कर से पहले लाभ - अन्य आय) / परिचालन से कुल राजस्व।
- 5) निवल लाभ मार्जिन = कर के बाद शुद्ध लाभ / कुल आय।
- 6) सकल ऋण क्षतिग्रस्त संपत्ति अनुपात = सकल ऋण क्षतिग्रस्त संपत्ति / सकल ऋण संपत्ति।
- 7) शुद्ध ऋण क्षतिग्रस्त संपत्ति अनुपात = शुद्ध ऋण क्षतिग्रस्त संपत्ति / सकल ऋण संपत्ति।
- 8) सीआरएआर = कुल पूँजी निधि (टियर 1 पूँजी + टियर 2 पूँजी) / जोखिम भारित संपत्ति, लागू आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार गणना की जाती है।
- 9) ऋण सेवा कवरेज अनुपात, ब्याज सेवा कवरेज अनुपात, चालू अनुपात, कार्यशील पूँजी के लिए दीर्घकालिक ऋण, खाता प्राप्य अनुपात के लिए खराब ऋण, वर्तमान देयता अनुपात, देनदार टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

31.12.2025 को समाप्त तिमाही और नौ महीनों के लिए अलेखापरीक्षित समेकित वित्तीय परिणामों के नोट्स:

1	31.12.2025 को समाप्त तिमाही और नौ महीने के लिए समूह के इन गैर-लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय परिणामों की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई और सिफारिश की गई, जिसे कंपनी के निदेशक मंडल (बोर्ड) ने 05.02.2026 को आयोजित अपनी-अपनी बैठकों में अनुमोदित कर रिपोर्ट में दर्ज कर लिया। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी के संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों, ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और मेहरा गोयल एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने एसईबीआई (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015, संशोधित के विनियम 33 और 52 के अनुसार इन वित्तीय परिणामों की सीमित समीक्षा की है।																																						
2	ये अलेखापरीक्षित समेकित वित्तीय परिणाम, समय-समय पर संशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखा मानक ('इंड एएस')-34 'अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग' में निर्धारित मान्यता और माप सिद्धांतों तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए हैं।																																						
3	इन असंपरीक्षित समेकित वित्तीय परिणामों में एक सहायक कंपनी के तिमाही सीमित समीक्षा किए गए समेकित वित्तीय परिणाम शामिल हैं; एक सहायक कंपनी के प्रबंधन द्वारा अनुमोदित समेकित वित्तीय परिणाम और दो सहायक कंपनियों और ग्यारह सहयोगी कंपनियों के प्रबंधन द्वारा अनुमोदित एकल वित्तीय परिणाम। इन सहायक कंपनियों और सहयोगी कंपनियों के वित्तीय परिणामों को भारतीय लेखा मानक 110 - 'समेकित वित्तीय विवरण' और भारतीय लेखा मानक 28 - 'सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश' के अनुसार समेकित किया गया है।																																						
4	बोर्ड ने 05.02.2026 को आयोजित अपनी बैठक में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए चुकता इक्विटी शेयर पूंजी पर 40% की दर से यानी ₹10/- के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर ₹4.00/- के तीसरे अंतरिम लाभांश की घोषणा की है। कंपनी ने इससे पहले वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अंतरिम लाभांश के रूप में ₹7.35/- का भुगतान किया था।																																						
5	कंपनी और इसकी सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के मामले में, बोर्ड द्वारा अनुमोदित अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) नीति के अनुसार ऋण परिसंपत्तियों पर हानि हानि भत्ता प्रदान किया गया है और यह भारतीय लेखा मानक 109 'वित्तीय उपकरण' के अनुसार ईसीएल के मूल्यांकन के लिए संबंधित कंपनियों द्वारा नियुक्त एक स्वतंत्र एजेंसी से प्राप्त रिपोर्ट पर आधारित है। इस संबंध में विवरण नीचे दिया गया है: (करोड़ ₹ में)																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">क्र. सं.</th> <th rowspan="2">विवरण</th> <th colspan="3">31.12.2025 तक</th> <th colspan="3">31.03.2025 तक</th> </tr> <tr> <th>चरण 1 एवं 2</th> <th>चरण 3</th> <th>कुल</th> <th>चरण 1 एवं 2</th> <th>चरण 3</th> <th>कुल</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>क)</td> <td>ऋण बकाया (बकाया मूलधन)</td> <td>11,36,935.45</td> <td>14,471.70</td> <td>11,51,407.15</td> <td>10,91,826.39</td> <td>18,169.50</td> <td>11,09,995.89</td> </tr> <tr> <td>ख)</td> <td>क्षतिग्रस्त हानी भत्ता*</td> <td>11,188.99</td> <td>11,816.55</td> <td>23,005.54</td> <td>11,317.23</td> <td>13,913.74</td> <td>25,230.97</td> </tr> <tr> <td>ग)</td> <td>क्षतिग्रस्त भत्ता कवरेज (%) (बी/ए)</td> <td>0.98%</td> <td>81.65%</td> <td>2.00%</td> <td>1.04%</td> <td>76.58%</td> <td>2.27%</td> </tr> </tbody> </table>	क्र. सं.	विवरण	31.12.2025 तक			31.03.2025 तक			चरण 1 एवं 2	चरण 3	कुल	चरण 1 एवं 2	चरण 3	कुल	क)	ऋण बकाया (बकाया मूलधन)	11,36,935.45	14,471.70	11,51,407.15	10,91,826.39	18,169.50	11,09,995.89	ख)	क्षतिग्रस्त हानी भत्ता*	11,188.99	11,816.55	23,005.54	11,317.23	13,913.74	25,230.97	ग)	क्षतिग्रस्त भत्ता कवरेज (%) (बी/ए)	0.98%	81.65%	2.00%	1.04%	76.58%	2.27%
क्र. सं.	विवरण			31.12.2025 तक			31.03.2025 तक																																
		चरण 1 एवं 2	चरण 3	कुल	चरण 1 एवं 2	चरण 3	कुल																																
क)	ऋण बकाया (बकाया मूलधन)	11,36,935.45	14,471.70	11,51,407.15	10,91,826.39	18,169.50	11,09,995.89																																
ख)	क्षतिग्रस्त हानी भत्ता*	11,188.99	11,816.55	23,005.54	11,317.23	13,913.74	25,230.97																																
ग)	क्षतिग्रस्त भत्ता कवरेज (%) (बी/ए)	0.98%	81.65%	2.00%	1.04%	76.58%	2.27%																																
	* कम्फर्ट लेटर और अंडरटेकिंग लेटर पर ₹ 65.69 करोड़ की इम्पेयरमेंट लॉस अलाउंस (हानि प्रावधान) सहित। (31.03.2025 को यह ₹ 69.19 करोड़ था।)																																						
6	विवेक के आधार पर, ऋण क्षतिग्रस्त ऋणों पर आय की पहचान तब की जाती है जब वह प्राप्त होती है या जब अपेक्षित वसूली बकाया ऋण राशि से अधिक होती है, तो उसे उपार्जन आधार पर मान्यता दी जाती है।																																						
7	संशोधित रूप में सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 52(4) के अनुसार प्रकटीकरण अनुलग्नक क में संलग्न है।																																						

8	वर्तमान अवधि में कंपनी के वित्तीय परिणामों पर 'न्यू लेबर कोड्स, 2025' (नए श्रम कानून, 2025) के लागू होने का कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ा है। साथ ही, कंपनी केंद्र राज्य के नियमों को अंतिम/रूप दिए जाने और श्रम कोड के अन्य पहलुओं पर सरकार के स्पष्टीकरणों की निगरानी करनी जारी रखेगी और आवश्यकतानुसार इन विकासों के आधार पर उचित लेखांकन प्रभाव प्रदान करेगी।
9	समूह के संचालन में केवल एक व्यवसाय खंड शामिल है - बिजली, रसद और बुनियादी ढांचा क्षेत्र को ऋण देना। इसलिए, भारतीय लेखा मानक 108 "ऑपरेटिंग सेगमेंट" के अनुसार कोई अन्य रिपोर्ट योग्य व्यवसाय / भौगोलिक खंड नहीं है।
10	पिछली अवधि के आंकड़ों को, जहां भी आवश्यक हो, पुनः समूहीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है, ताकि उन्हें वर्तमान अवधि के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाया जा सके।

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 05.02.2026

परमिंदर चोपड़ा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 08530587

समेकित आधार पर 31.12.2025 को समाप्त तिमाही और नौ महीनों के लिए सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 52 (4) के अनुसार प्रकटीकरण:

क्र. सं.	विवरण	दिनांक 31.12.2025 को समाप्त तिमाही तक/के लिए	दिनांक 31.12.2025 को समाप्त तिमाही तक/के लिए
(i)	ऋण से इकिटी अनुपात (गुना)	5.68	
(ii)	बकाया रिडीमेबल वरीयता शेयर	-	
(iii)	पूंजी मोचन रिजर्व/डिबेंचर मोचन रिजर्व	-	
(iv)	नेट वर्थ (₹ करोड़ में)	1,30,348.97	
(v)	कर पश्चात शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	8,211.90	25,027.74
(vi)	प्रति शेयर आय (वार्षिकीकृत नहीं) (₹ में)		
	बेसिक	19.07	57.28
	डाइल्यूटेड	19.07	57.28
(vii)	कुल ऋण से कुल संपत्ति (गुना)	0.80	
(viii)	परिचालन मार्जिन (%)	35.94	36.53
(ix)	निवल लाभ मार्जिन (%)	28.18	28.88
(x)	अन्य क्षेत्र विशेष अनुपात (%)		
	(घ) सकल ऋण क्षतिग्रस्त परिसंपत्ति अनुपात	1.26	
	(ङ) निवल ऋण क्षतिग्रस्त परिसंपत्ति अनुपात	0.23	

टिप्पणी:

- 1) ऋण से इकिटी अनुपात = शुद्ध ऋण / (इकिटी शेयर पूंजी + अन्य इकिटी + गैर-नियंत्रित ब्याज)। शुद्ध ऋण = (ऋण प्रतिभूतियों + उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा) + अधीनस्थ देयताएँ) का मूल बकाया घटा नकदी और नकदी समकक्ष।
- 2) निवल संपत्ति = इकिटी शेयर पूंजी + अन्य इकिटी।
- 3) कुल ऋण से कुल परिसंपत्तियाँ = (ऋण प्रतिभूतियों + उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा) + अधीनस्थ देयताएँ) का मूल बकाया / कुल परिसंपत्तियाँ।
- 4) परिचालन मार्जिन = (कर पूर्व लाभ - अन्य आय) / परिचालन से कुल राजस्व।
- 5) शुद्ध लाभ मार्जिन = कर के बाद शुद्ध लाभ/कुल आय।
- 6) सकल ऋण क्षतिग्रस्त परिसंपत्ति अनुपात = सकल ऋण क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियाँ / सकल ऋण परिसंपत्तियाँ।
- 7) शुद्ध ऋण क्षतिग्रस्त परिसंपत्ति अनुपात = शुद्ध ऋण क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियाँ / सकल ऋण परिसंपत्तियाँ।
- 8) ऋण सेवा कवरेज अनुपात, ब्याज सेवा कवरेज अनुपात, चालू अनुपात, कार्यशील पूंजी के लिए दीर्घकालिक ऋण, खाता प्राप्य के लिए खराब ऋण अनुपात, वर्तमान देयता अनुपात, देनदार टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात समूह पर लागू नहीं होते हैं।

